APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE (Healthoure) संस्थायता हेत् आयेदन प्रारूप (स्वास्थव देखधार)					Koshika foundation
APPLICATION No.:	M/0123/00	2. 9 APS	PLICATION DATE:/	01/23	Pulishing slock of Us.
MAME of APPLICANT : आलेरक प्राचित्र :			AGE-YEARS HE	ु—वर्ष इस्ट्र हेरांग ि	
FATHER'9/SPOUSE'S पिरा/कटुम्म का नाम	NAME:	S Anadoc	रनेपान आसायीय प्रशा		THE PARTY OF THE PARTY
Villa 43	yella Khini		0 4345 UH	en Proof est	BOOP - POET OF
	PERNANENT RE	esidènce address : 1 Inf CLS (1880)	या अकसीप परा		
OCCUPATION:	Home Naker		ι	MARRIED (Raide)	J UNMARRED (************************************
TOTAL ANNUAL INCOL कुल कार्वक आप PAN No. स्ट्राई खादा सं	560	To (formet	1-1	(Allect Proof of In (साप के सक्ष्य स	со пи) ЯЧЭ)
	ल्या TAX ASSESSEE (Tick whicheve है (जो मान्य हो तस पर सही का	r iş opplicablej:	Yes i No हाँ / नह		
ज्या आव आव कर देशा	ह (जा मान्य हत्त्वस मास्त्रहाकः)		प्रतिकार परिवार		
Sr. No. ऋथ व्यंख्या	Name of Family ! परिवार के सदस्यों	Manufact arr arr	Age (Years) 39 ('erf)	Gender fein	Relation with Applicant अवेदक के सुख सम्बद्ध
7 1	s hattend	OH Mamort .	30	jan a	.50 k
27	DAY SHOULD HAVE OR		18	100	SON
(<u>3</u>)	Duberolin.		26	<u></u>	Danah ten
(E)	200 200		67	-	English Till
	-			-	
	BASIS 1	ਰਾ REQUESTING ASSIST ਗਾਵਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਵੇ ਵਿਸ਼ਹਿ ਆ	TÄNGE (Tick which kry	ever la applicable)	
8PL Ca (Attach Card गरीबी रेख्य के बीचे (प्रमाण पत्र की झाम प्र	Сору) (Attacl	EWS Certificate (Athach Gertificate Copy) अस्य आद को प्रमाद पत (जनमा एक को सम्म प्रति संसान करे।		tion Curd अर्थन Gopp) भेक्ता कार्ड अया क्रीत संतर्भ करे	Any Other Basis/Presi इन्य कोई साक्ष्य
		"शासPCSE" for REC सहापना हेतु किये	QUESTING ASSES दथे किसी का सर्वे		
Sr. No.	Medical Reporte/Prescriptions Attached				
कम संख्या	अस्मवाल/कांक्श भे जारी की दई प्रतिवेदन गूची खंतान				
	Diagnosia - Re - Soule Catatria				
		16 - 5	eniso co	i tomact	
2. P. F STCS with Point clark Camp					

	-		HIS. II		
	Assistan Pe d	ÇE BEDIO AVAILED for 8 धुरेश्य के हेंद्र कोई अन्य स	8.MME "PURPOSE" स्वापतः किसी अन्य स	from OTHER SOURCE भोत में लिया गया हो?	8
Sr. No.	HAME of OTHER SOURCE				AGSISTANCE BEING AVAILED स्रो मा सहस्रक क्यो
कप संख्या	कन्य स्थेत कर गाम			ं भा सहस्य प्रश	
	17003				

эку вему тор жүйер. Ямкошяял үч мопландырад

τυς τομπουσογυσμένο[αυτομές αποιή SOR J. MOUNINESS BOYOUT Y CORRESTED AND TOPLOS DE PROCESTES COMPLETE AND TRANSPORTE AND TOP AND THE PROCESTES DESCRIPTION AND THE PROCESTES AND THE PROCESTE

2) - ευταιμώς ένα το μετρομείου τη μετρομείου το που μετρομού το που το που ένα με το που το που το που το που τ

ֆի Իաթեկ մամի մոնեց են գտեղ գեն Will not ու Մմաթ, թեթի մի հենմթերայի, ու բավ օր հարարդ գետ բառանգարագարության ա ow 4s passarber eaw

🕽 मुन्दान २०५१ है कर अल के कि वन प्रमाण कार्यक के कि है। तह मुन्दान के अल १५ कि है कि प्रमाण के अपने कि के मुन्दान के अपने कि है। वह अपने कि प्रमाण के अपने कि मुन्दान के अपने कि है। विभाव के अपने कि है कि प्रमाण के अपने कि है। persenper at aprelaises aint dalify rot

No bear to a start in a limit of a recognitive and the second and the second and the contract of the contract हि प्राप्त हुन कि क्या हुन कि क्रिकेट करते होती के लिंद्र कि एम्केट किस एक्सिक एक्स है कि एट कि कि कि कि कि कि

(лиж из атёры) ТИАОШЧЕА уд ТИВМВЕЛОА.

eoffelf@ayleriende.com/com/linto & delicito & delicito e com com la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composició mediam metuding but not lembad to verbal, print, elinatronio, for selecting abayatena for Koshika Fourceston anatori dissanitazing irformaton abasi ifis a secara my signature or future impression on the Form, Lyngbloshi) hereby agree & authorise Koshika Fuundarion and the Instance in

Αθίος του Ινν θουσίθηκο ότι, δεματήριο τούστο δείματιδ τοι σεσαριστή τουσίσμες είς στίπτησος το δελγέσος τοι είχτε κίστος πουρίσκος το έίχτε Z) i (Applicatify Lifter agone that may such to they sends, about a book a details of the "purpose", for which such assistance is requested framed. for which assistance is being requested.

ुम्म **तर्भ की के एक तक्**रीय कि ै विरियत केवट और भाष्ट्राक्ष कि बीक्ष, विर्देश कि दीएक सिम्छ (उन्होंस) वि इसकार पर कि होन्छ कि क्रिक का स्वया छि (१ felt of eight-2006 ptd jeut 66 jiw preëst sjat sjungtoep flout pue rugjjeping 4 ekjusoy je soosnit, atp tipw

मुख्यम प्रचार कि किस्ते हुंहों के विकासित होट कि विकास के के विकास कर कि विकास कर कि विकास के कि कि कि कि कि कि

हि हुम्लोक शिक्षः स "महर्कराज स्मार्गिक" प्राप्ती स्न म्हर्कर नि सन प्रस्तुष्ट के व्यवद्व मेंग एकसी क बाद मेंग हि व्यवद्व के रिक्स जिल्ला के

। एन्हें निकार प्रति । एरिक द्रोनी क देनिक रेक्ट नुष्कु "। हारिक"

🖷 Sphicklighter in Applica

🕶 🕶 тээл яо алилияна витилиячү

(DAY DE EARLY) LATINSON WITHSHEED OA

(Messal being and a comment of the second se **აო საეღისაიც ღაციაც სი**იც იის**იციანი ც**ვისიიც ანც ცინაბებაბა გექ მიციანსანათ ან, ბადანმც დაციათუბის დ ფოლინც ზოდით მით ყობენ

limiagaged कर्षे earnet undebraced addeed yet beareather yew on rise has been led earlies at the measurement in these of she in the leading of the leading er) no lateral Lead ye betouchookbesiyas embecorgiaserused erif to ediotib erif Leadan fri jakonalit yino el notablección en enderante en filip eornes sego ACE to OSA, tedit of the ment except and confidence and the confidence of the land of the land section from the land sec atrificatives north ynd in OSK sockons men delheisu eit goleden of zign eit ee teset Eligedij eit hedy ful ning heg at goledande estadd yn bernang formati estilative bulletures and in a contraction of a distriction of the Foundation of the F

mane à 8 me rest lie gen gé ancoentre atrà remin es "aréane ample" Pe 18 et 30 met avents matée" à noir é res distribuird è ाड़े किया अन्यक्त के क्या है सक्य कार्न (एकानव) कु ईस्ट्रें, में दिल कि क्षियाओं हो समास करीयों है "क्लेक्सक न्यूनेंस कि क्षियों के 10 कि कि 10 कि 10 कि nomem and m

्रिक्ट्यक् क्रिक्ट मार्ग का क्रिक्ट कि**द्यों हुए हिमान्स्**री कर कुम मुद्रि कारक्क की है 181म अब 200 में अंट कर है तारक क्षित कर की तारकार के समाजार कर किसी क क्षित कर का किसी

हमाभव कि विशे विश्वनित है। के कि कि कि प्रदेश करहे के कि दि जारक दिना है कि काल देखा कि वाल किया कि कि कि कि क **मिन्छ ५६ १५ शम्ह कि विकासकृत** में में कि कार के कि कह जाएड़ जा ऐसे (हैं कि स्कूस मरिसे उनके कराव है। कि के "महकेवार सर्वीकि"

, किह जिल्ह के दिल्ला के किल्लिंग के फिल्क् के कि कि कि कि कि कि

अंक्रिके प्राप्ती के किक्रीक BONSTRADOALFOR GRANDMINOCER

HE STEP 间图道 yextengia besinfilitizing Mana ter Administration

by higher extents

COST TO STAND STAN

इ ध्रमाञ्च किटन SIGNATURE of TRUSTEE 2

ा अध्यक्ष विशेष PERTURE & SAUTANORS

2202,23,10

សំនប់រាច្ឆ រូប នយុក្ខា